

एसबीआई लाइफ – ईशील्ड एक इंडिविजुअल, नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्योर रिस्क प्रीमियम उत्पाद है. इसे टेक्नोलॉजी के शौकीन, शिक्षित, हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों के लिए रचा गया है जो प्योर प्रोटेक्शन कवर चाहते हैं. यह प्लान दो फायदों की रूपरेखा के साथ मिलता है, लेवल कवर, जहाँ पर संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान सुरक्षा राशि स्थिर रहती है और इंक्रीजिंग कवर, जहाँ पर सुरक्षा राशि समय के साथ बढ़ती रहती है. यह प्लान इन बिल्ट एक्सलरेटेड टर्मिनल इलनेस लाभ और चुने गए राइडर्स के लिए अतिरिक्त प्रीमियम अदा करते हुए सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने का विकल्प भी प्रदान करता है.

एसबीआई लाइफ – ईशील्ड क्यों?

- आपके परिवार के लिए सुरक्षा वाजिब खर्च पर.
- लाइफ कवर पाने के लिए आसान और बिना रुकावट के ऑनलाइन प्रक्रिया.
- लेवल कवर और इंक्रीजिंग कवर की दो लाभ संबंधी रूपरेखा, जो आपकी पसंद के अनुसार सुरक्षा प्रदान करती हैं. चुने गए विकल्प के आधार पर प्रीमियम राशि अलग अलग होती है.
- दोनों लाभ की रूपरेखाओं के तहत इनबिल्ट एक्सलरेटेड टर्मिनल इलनेस बेनिफिट.
- यदि आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो आपको कम प्रीमियम का लाभ देती है.
- निम्नलिखित राइडर्स के ज़रिए आपके कवरेज को बढ़ाने का विकल्प :
 - एसबीआई लाइफ – एक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर (UIN: 111B015V03)
 - एसबीआई लाइफ – एक्सिडेंटल टोटल एंड पर्मनेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर (UIN: 111B016V03)
- मेडिगाइड इंडिया द्वारा मेडिकल सेकंड ओपिनियन सेवा हासिल कीजिए जिसकी बदौलत आप अन्य डॉक्टर द्वारा अपने निदान और उपचार योजनाओं के बारे में दूसरी राय पाइए.
- आयकर कानून 1961 के अंतर्गत विद्यमान नियमों के अनुसार कर लाभ*.

*कर लाभ आयकर कानूनों के अनुसार हैं और समय-समय पर बदलाव के अधीन हैं. कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें.

कृपया ध्यान दें : राइडर आशवासित राशि मूल आशवासित राशि से अधिक नहीं हो सकती. ये राइडर्स लेवल टर्म एश्योरेंस और इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस प्लान विकल्पों दोनों के साथ उपलब्ध हैं. राइडर्स के साथ लेवल कवर होगा भले ही उन्हें इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस के साथ चुना गया हो.


उदाहरण

35 वर्षीय श्री विजय (नॉन-स्मोकर) हैं जिन्हें हमेशा चिंता रहती है कि यदि उन्हें कुछ हो गया तो उनके परिवार की आर्थिक आत्मनिर्भरता खो जाएगी क्योंकि वे ही अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं. उन्होंने एसबीआई लाइफ – ईशील्ड खरीदने का फैसला किया है.

आइए हम देखें कि कैसे एसबीआई लाइफ – ईशील्ड उसके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करता है.

इंक्रीजिंग कवर लाभ

आरंभिक आशवासित राशि : 50 लाख, पॉलिसी अवधि : 30 वर्ष, वार्षिक प्रीमियम : ₹ 9,350



मान लीजिए 6वें पॉलिसी वर्ष* के दौरान उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में देय आशवासित राशि होगी ₹55,00,000. लेकिन, यदि 11वें पॉलिसी वर्ष* में मृत्यु होती है तो देय आशवासित राशि होगी ₹60,00,000 (₹50,00,000 + [2*10%*50,00,000])

*बशर्ते निदान के दिनांक पर या मृत्यु के दिनांक पर पॉलिसी कार्यरत हो, जैसा लागू हो.

प्लान पर एक नज़र		
लाभ संरचना	<ul style="list-style-type: none"> लेवल कवर इंक्रिजिंग कवर 	
प्रवेश पर आयु [^]	न्यूनतम : 18 वर्ष	अधिकतम : लेवल कवर : 65 वर्ष इंक्रिजिंग कवर : 60 वर्ष
परिपक्वता पर आयु [^]	लेवल कवर लाभ के लिए 80 वर्ष इंक्रिजिंग कवर लाभ के लिए 75 वर्ष	
मूल आश्वासित राशि (₹ 1,00,000 के गुणकों में)	न्यूनतम : ₹35,00,000	अधिकतम : कोई सीमा नहीं (बोर्ड की मान्य अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन)
प्रीमियम भुगतान मोड	वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक ^{^^}	
गैर-वार्षिक मोड्स के लिए प्रीमियम	अर्ध-वार्षिक : वार्षिक प्रीमियम का 51.00% त्रैमासिक : वार्षिक प्रीमियम का 26.00% मासिक : वार्षिक प्रीमियम का 8.50%	
पॉलिसी अवधि	न्यूनतम : लेवल कवर के लिए : 5 वर्ष इंक्रिजिंग कवर के लिए : 10 वर्ष	अधिकतम : लेवल कवर के लिए : प्रवेश पर 80 वर्ष से कम आयु [^] इंक्रिजिंग कवर के लिए : प्रवेश पर 75 वर्ष से कम आयु [^]
प्रीमियम भुगतान अवधि	पॉलिसी अवधि के समान	
^{SS} प्रीमियम राशि	न्यूनतम : वार्षिक : ₹2,779 अर्ध-वार्षिक : ₹1,418 त्रैमासिक : ₹723 मासिक ^{^^} : ₹237	अधिकतम : कोई सीमा नहीं (बोर्ड की मान्य अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन)

[^]आयु के सभी संदर्भ पिछली वर्षगांठ पर आयु से हैं।

^{^^}मासिक भुगतान के लिए, 3 माह तक का प्रीमियम पेशगी अदा किया जाना चाहिए. नवीनीकरण प्रीमियम भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के जरिए (जहाँ भुगतान या तो बैंक खाते से सीधे डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जाता है). मासिक सैलरी सेविंग स्कीम (एसएसएस) के लिए, 2 माह का प्रीमियम पेशगी अदा किया जाना चाहिए और नवीनीकरण प्रीमियम भुगतान की अनुमति केवल वेतन कटौती के जरिए है.

^{SS}ऊपर दर्शाया गया प्रीमियम लागू करें और अंडरराइटिंग अतिरिक्त को छोड़कर है. कर, प्रचलित कर कानूनों के अनुसार कर लागू होंगे.

रियायतों की निषिद्धता :

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार :

- (1) कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी व्यक्ति को, जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के लिए बीमा करवाने या इसका नवीनीकरण करवाने या बीमा पॉलिसी जारी रखने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना तो कोई प्रलोभन दे सकता है, न ही देय कमीशन से सम्पूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट दे सकता है, न ही पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी तरह की छूट दे सकता है, न ही बीमा पॉलिसी लेने वाला या इसका नवीनीकरण करवाने या इसे जारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी तरह की छूट स्वीकार कर सकता है, बशर्ते प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या बीमाकर्ता की तालिका के अनुसार इस तरह की छूट की अनुमति दी गई है.
- (2) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करने पर वह जुर्माने का पात्र होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है.

Toll Free: **1800 103 4294** | SMS - 'Ebuy eS' to **56161** | Visit us at: **www.sbilife.co.in** | E-mail: **online.cell@sbilife.co.in**
(Between 8.30 am & 9.30 pm)

Follow us on: [f](https://www.facebook.com/sbilifeinsurance) /sbilifeinsurance | [y](https://www.youtube.com/channel/UC...) /sbilifeinsurance | [t](https://www.twitter.com/sbilife) /sbilife

फ़र्जी फोन कॉल्स और जाली/धोखाधड़ी के ऑफ़र्स से सावधान :

IRDAI इश्योरेंस पॉलिसी बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम के निवेश जैसी किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है. इस प्रकार के फोन कॉल्स प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज़ करें.

जोखिम कारकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक विवरण के लिए कृपया बिक्री पूर्ण करने से पूर्व विक्रय विवरणिका ध्यान से पढ़ें. राइडर, नियमों और शर्तों, बहिष्करणों पर अधिक विवरण के लिए कृपया राइडर विवरणिका पढ़ें. ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो भारतीय स्टेट बैंक का है और लाइसेंस के तहत एसबीआई लाइफ द्वारा प्रयुक्त किया गया है. यह बिक्री साहित्य ग्राहक की सुविधा के लिए अनूदित किया गया है, यदि किसी शब्द/कथन में अनजाने में कोई फर्क, त्रुटि रह गई हो तो सर्वथा अंग्रेजी संस्करण को ग्राह्य माना जाएगा. एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : नटराज, एम. वी. रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 069. **IRDAI पंजीकरण संख्या 111.**
CIN : L99999MH2000PLC129113. 1G.ver.02-06-20 SP HIN